

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2024—फाल्गुन 7, शक 1945

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2024

क्र. एफ 05-05-0009-2023-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है:—

अनुसूची-एक

(1) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

अनुसूची-“दो”

दिव्यांगजनों के लिये चिन्हांकित पदों की जानकारी

विभाग : कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधे भर्ती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3a)	निशक्ताजन ों के लिए चिन्हांकित पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हांकित पद	भरने पर रिक्त पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हांकित पद	भरने पर रिक्त पद	दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पद/भरने पर रिक्त पदों की जानकारी	रिक्त पद	भरने पर रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल भरे पद (8+8+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	रिक्त पदों की पूर्त कब तक की जावेगी					
																	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)				
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
द्वितीय	सहायक संचालक हाथकरघा/राज्य	12	5	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	म.प्र. लोक सेवा आयोग को प्रेषित -तदेव
द्वितीय	सहायक संचालक तकनीकी/राज्य	12	0	12	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	-तदेव
तृतीय	सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी	15	1	14	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-तदेव

पद की श्रेणी	पद/सर्वनाम का नाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधे भर्ती के द्वारा भरे हुए पद	रिक्त पद (3-3a)	निशक्तजनों के लिए चिन्हां की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु विचारकृत पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी											रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी				
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हां कृत पद	भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कम पुनने वाले (1.5%) चिन्हां कृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद		रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद	रिक्त पद
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
वृत्तीय	कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी	31	16	15	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2	-तदैव
वृत्तीय	सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी तकनीकी	15	0	15	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	-तदैव
वृत्तीय	कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी तकनीकी	30	2	28	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2	-तदैव
वृत्तीय	तकनीकी सहायक	15	8	7	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-तदैव

पद की श्रेणी	पद/सर्वग का नाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधे भर्ती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3a)	निशक्तजन के लिए रिक्त पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी										रिक्त पदों की पूर्ति के तक की जावेगी							
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनमें सम्मिलित है, संरेखण पाल्सी, कुछ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक, पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	ऑटिज्म, नौटिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)		भरे पद	रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल भरे पद (6+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)		
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
प्राथमिक	श्रीधरलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्राथमिक	सहायक ग्रेड-3	43	29	14	03	01	0	1	0	0	0	01	0	1	1	0	1	3	0	3	0	0	
प्राथमिक	स्टेनो टायपिस्ट	6	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्राथमिक	वाहन चालक	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
चतुर्थ	भृत्य	73	34	39	04	01	0	1	1	0	1	0	0	0	02	0	2	4	0	4	0	0	
चतुर्थ	चौकीदार	22	4	18	01	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
	योग	281	41	65	17	02	0	02	06	1	04	06	0	06	03	0	03	17	01	16			
विभाग का नाम : कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (रेशम संचालनालय)																							
द्वितीय	सहायक संचालक / राज्य	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							मोशो लोक सेवा आयोग को प्रेषित

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सौधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सौधी भर्ती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3a)	नियुक्तजन के लिए पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु विहाकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी										रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी					
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हित पद	भरे पद	रिक्त पद	वहरे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हित पद	भरे पद	रिक्त पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)		कुल भरे पद (6+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)			
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
तृतीय	फिल्ड ऑफिसर	22	13	9	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-तदैव
तृतीय	कनिष्ठ निरीक्षक	49	22	27	4	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	4	1	3	-तदैव
तृतीय	फील्ड मैन	16	17	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	-तदैव
तृतीय	वाहन चालक	15	03	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	-तदैव
तृतीय	सिनेमा ऑपरेटर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-तदैव
तृतीय	फिल्ड इन्वैस्टीगटर	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-तदैव
तृतीय	स्टेनोग्राफर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-तदैव
तृतीय	स्टेनो टायपिस्ट	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-तदैव
तृतीय	सहायक ग्रेड-3	45	36	9	3	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	3	1	2	-तदैव
चतुर्थ	आपरेटिव्ह	107	72	35	6	2	0	2	1	0	1	2	2	0	1	1	0	6	3	3	-तदैव
चतुर्थ	भृत्य	41	26	15	3	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	3	1	2	-तदैव

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधे भर्ती के द्वारा भरे हुए पद	रिक्त पद (3-3a)	निशक्तजन के लिए चिन्हां की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु, चिन्हांकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी								रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जायेगी							
						दृष्टि नाशित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कम चुनने वाले (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	लोकोपीटर डिसेबिलिटी के निम्नलिखित हैं: सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्ता, बौनापन, एसिड अटैक, पीडित मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1.5%) चिन्हांकित पद	रिक्त पद		ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)	भरे पद	रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल भरे पद (6+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग	312	197	110	19	5	0	4	6	3	3	5	4	1	03	0	2	19	08	11	
विभाग का नाम : कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड)																					
द्वितीय	प्रबंधक	19	0	19	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	
तृतीय	सहायक प्रबंधक	23	07	16	01	0	0	0	0	0	0	01	0	01	0	0	0	01	0	01	
तृतीय	शौघ लेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	पर्यवेक्षक	21	04	17	02	01	0	01	0	0	0	0	0	0	01	0	01	02	0	02	
तृतीय	सहायक ग्रेड-3	30	18	12	02	0	0	0	01	0	01	01	0	01	0	0	0	02	0	02	

17

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधे भर्ती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3b)	निशक्तजनों के लिए चिन्हां कितने पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हां कितने पद	बहरे और कम चुनने वाले (1.5%) चिन्हां कितने पद	भरे पद	रिक्त पद	दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी										रिक्त पदों की पूर्ति कर तक की जायेगी	
										दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हां कितने पद	बहरे और कम चुनने वाले (1.5%) चिन्हां कितने पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद		भरे पद
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
तृतीय	वाहन चालक	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चतुर्थ	भृत्य	39	21	18	02	01	0	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	02	0	02	-तदेव
	योग	135	52	83	8	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	8	0	8	135

विभाग का नाम : कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लि. भोपाल)

द्वितीय	महाप्रबंधक	02	0	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
द्वितीय	प्रबंधक	9	3	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
तृतीय	सहायक प्रबंधक	23	0	23	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
तृतीय	स्टेनो टाइपिस्ट	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तृतीय	सहायक	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
तृतीय	वरिष्ठ विक्रेता	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तृतीय	विक्रेता	20	16	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
तृतीय	लिपिक	20	21	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
तृतीय	वाहन चालक	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तृतीय	भृत्य	86	67	19	6	2	0	2	2	1	2	1	1	1	0	0	0	6	2	4	0

पद की श्रेणी	पद/सर्वर्ग का नाम	सीधो मर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधो मर्ती के द्वारा मरे हुये पद	रिक्त पद (3-3a)	नियुक्तजन के लिए चिन्हां कित्त पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पद/मरे पद/रिक्त पदों की जानकारी			रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी													
						वृद्धि बाधित और कम वृद्धि (1.5%) चिन्हां कित्त पद	मरे पद	रिक्त पद														
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	योग	175	114	64	11	3	0	3	2	1	1	6	2	4	0	0	0	11	3	8		
	महायोग	903	404	322	55	12	0	11	16	5	10	19	6	13	8	1	7	55	12	43		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, अपर सचिव.